



Vaswani Industries Limited

POWER • SPONGE IRON • STEEL

• CIN - L28939CT2003PLC015964 • GSTN 22AABCV9564E1ZB

01th June, 2022

VIL/SECRETARIAL/2022-23

BY LISTING PORTAL

To, The Manager National Stock Exchange of India Ltd, Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051 Symbol: VASWANI	To, The Manager BSE Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001 Scrip Code: 533576
--	---

Sub: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Newspaper Publication

Dear Sir/Madam

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, please find attached herewith Newspaper publication w.r.t. Audited Standalone Financial Results (for the quarter and Financial Year ended 31st March 2022) approved at the Board meeting of the Company which was held on Monday, 30th May, 2022 (commenced at 03:00 P.M. and concluded at 05:20 P.M.), published in following newspapers:

- 1) English Newspaper (Free Press Journal- English Daily)
- 2) Regional Language (Hindi) Newspaper (Deshbandu-Hindi Daily).

Kindly take the above information on your records

Yours faithfully,
For, Vaswani Industries Limited,

(Yashwant Vaswani) Director.

Wholetime Director
DIN: 01627408

ABATE AS INDUSTRIES LIMITED				
CIN: L6590MH1981PLC062238				
Regd Off: Siddhart Nagar No 5, Chawl 19/168 S V RD, NR Vidgyur School, Goregaon West, Mumbai 400062				
Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31.03.2022				Rs. in Lakhs
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2022	Quarter ended 31.03.2021
		Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	4.59	17.47	3.01
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	-43.3	-42.08	-1.85
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	-43.3	-42.08	-1.85
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	-33.91	-33.63	-1.85
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]			1.61
6	Equity Share Capital	501.61	501.61	501.61
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-465.3	-465.3	-435.4
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	(a) Basic	-0.68	-0.67	-0.04
	(b) Diluted	-0.68	-0.67	-0.04
Note : The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange at www.bseindia.com (s) and the Company's website.				
For Abate AS Industries Ltd Sd/- Mr. Arkuzhiyan Samsudeen Director DIN : 01812828				
Place: Mumbai Date: 30/05/2022				

GARBI FINVEST LIMITED				
CIN: L65100MH1982PLC295894				
Regd. Off: 08, Rayfreda, 2nd Floor, Opp. H.P.Petrol Pump, Chakala, Andheri (East), Mumbai 400093				
Email: garbinvest@gmail.com; website: www.gpl.in				
Extract of Audited Financial Results for the year ended 31st March, 2022				(Rs. In lakhs)
Sl. No.	Particulars	Current Year ended Mar 31, 2022 (Audited)	Previous Year ended Mar 31, 2021 (Audited)	
1	Total income from operations (Net)	3652.81	238.13	
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3122.57	140.14	
3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3122.57	140.14	
4	Net Profit/(loss) for the period after Tax (after) and other comprehensive Income (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2967.54	99.96	
5	Total Comprehensive Income for the period Comprising Profit/(Loss) and (Other comprehensive Income for the period)	2967.54	(2,183.26)	
6	Earning per share (of Rs. 10/- each) (for discontinued and continuing operations)			
	- Basic	25.30	0.85	
	- Diluted	25.30	0.85	
7	Paid-up equity share capital (Face Value- Rs. 10/-)	1,173.07	1,173.07	
8	Reserve excluding revaluation Reserves as per Balance Sheet of previous accounting year	5,659.27	2691.73	
Notes: 1 The above Results were approved by Audit Committee at its meeting held on 30/05/2022 and taken on record by Board of Directors at its meeting held on 30/05/2022. The above financial results were also reviewed by the Statutory Auditors. 2 The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (www.bseindia.com).				
For Garbi Finvest Ltd. Sd/- Rupesh Kumar Pandey Managing Director (DIN: 00150561)				
Place : Mumbai Date : 30.05.2022				

IND Renewable Energy Limited				
(Formerly Known as Vakharla Power Infrastructure Limited)				
CIN: L40102MH2011PLC221715				
Regd. Office: 10 C, Comet Building, Guranank Road, Bandra West, Mumbai - 400050				
Tel: 022 - 65996817				
Statement of Audited Financial Results for the quarter ended on 31st March 2022				(Rs. In Lakhs)
Particulars	Standalone			
	Quarter Ended 31/03/2022	31/12/2021	31/03/2021	
1) Total income from operations (net)	00.00	00.00	00.00	
2) Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.60)	(1.98)	(3.46)	
3) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.60)	(1.98)	(3.46)	
4) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.60)	(1.98)	(3.46)	
5) Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(1.60)	(1.98)	(3.46)	
6) Equity Share Capital	302.73	302.73	302.73	
7) Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)	16.57	-	-	
8) Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs.10/- each)				
Basic:	(0.05)	(0.07)	(0.11)	
Diluted	(0.05)	(0.07)	(0.11)	
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each)				
Basic:	(0.05)	(0.07)	(0.11)	
Diluted:	(0.05)	(0.07)	(0.11)	
The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the website of the Company i.e. www.indrenewable.com and the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com.				
For IND Renewable Energy Limited (Formerly Known as Vakharla Power Infrastructure Limited) Sd/- Managing Director				
Place: Mumbai Date: 30/05/2022				

APPENDIX IV [See rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE (for immovable property)	
Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 29.12.2021 calling upon the Borrower(s) SUNIL MUKUND PARAB AND SHUBHANGI SUNIL PARAB to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 54,46,204.33 (Rupees Fifty-Four Lakhs Forty-Six Thousand Two Hundred Four and Paise Thirty-Three only) against Loan Account No HLAPVSH00239691 as on 23.12.2021 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice. The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 27.05.2022 . The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an Rs. 54,46,204.33 (Rupees Fifty-Four Lakhs Forty-Six Thousand Two Hundred Four and Paise Thirty-Three only) as on 23.12.2021 and interest thereon. The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets.	
DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY	
ALL THAT PIECE AND PARCEL OF UNIT BEING FLAT NO 201, ON THE 2ND FLOOR, C WING, IN THE BUILDING KNOWN AS SHIV DARSHAN CHS, SHIV VALLABH ROAD, OPP PATEL SAMAJ HALL, BORIVALI EAST, MUMBAI-400066, MAHARASHTRA, SANDED BY:	
EAST : CHAWLS	WEST : DHAWALGIRI CHS
NORTH : NARMADA CHSL	SOUTH: CRPL HOUSE
Sd/- Date : 27.05.2022 Place: MUMBAI	
Authorised Officer INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED	

G.K.P.PRINTING & PACKAGING LIMITED						
Gala No. 1, Ground Floor, Champion Compound, Opp. Chachas Dhaba, Vasai, Palghar - 401208. CIN: L21012MH2018PLC307426 • Email: gkpcpl@gmail.com • website: www.gkpl.in						
Statement of Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2022						(Rs. in Lacs)
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended		
		31/03/2022	31/12/2021	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2021
1.	Total income from Operations	1261.83	1906.95	1042.73	5339.78	2926.59
2.	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax Exceptional items and / or Extraordinary items)	11.98	10.96	9.56	110.55	108.60
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items and / or Extraordinary items#)	11.98	10.96	9.56	110.55	108.60
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional items and / or Extraordinary items#)	8.73	6.89	6.95	81.07	77.64
5.	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	8.73	6.89	6.95	81.07	77.64
6.	Equity Share Capital Face Value Rs. 10/- Each	1466.59	1466.59	733.29	1466.59	733.29
7.	Earnings per share (of Rs.10/- each) (for continuing & discontinued Operation:					
	1. Basic	0.06	0.05	0.05	0.55	0.53
	2. Diluted	0.06	0.05	0.05	0.55	0.53
Notes: 1. The above is an Extract of the detailed format of Audited Quarter and Year Ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Half Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com and on the website of the Company i.e. www.gkpl.in. 2. These Standalone Audited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee in its meeting concluded on 30th May, 2022 and were approved by the Board of Directors in their meeting held on 30th May, 2022.						
Place: Vasai Date : 30/05/2022			For, G.K.P. Printing & Packaging Limited Sd/- Keval Goradia - Managing Director			

ORGANIC COATINGS LTD.						
(CIN L24220MH1965PLC013187)						
Registered Office : Unit No 405, Atlanta Estate Premises Co-Op.Soc. Ltd. Vith Bhatti, Goregaon (East), Mumbai - 400 063.						
Email ID for Investor's Grievances - organiccoatingsltd@organiccoatingsltd.com Website: www.organiccoatingsltd.com						
STATEMENT OF AUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2022						(Rs. In Lakhs, except for Earning Per Share)
Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31.03. 2022	Year Ended 31.03.2022	Quarter ended 31.03. 2021	Year Ended 31.03.2021	
		*(Audited)	(Audited)	*(Audited)	(Audited)	
1	Total income from operations (net)	693.35	2,217.57	529.99	1,410.13	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)	(17.29)	(197.21)	(27.90)	(215.17)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	(17.29)	(197.21)	(27.90)	(215.17)	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	(20.32)	(200.23)	(27.90)	(215.17)	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax)]	(19.07)	(198.99)	(25.95)	(213.22)	
6	Equity Share Capital	767.46	767.46	767.46	767.46	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year		(691.84)		(492.85)	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)					
	Basic :	(0.26)	(2.61)	(0.36)	(2.80)	
	Diluted:	(0.26)	(2.61)	(0.36)	(2.80)	
Note: 1) *The figures of current quarter and quarter ended 31st March, 2021 are the balancing figures between audited figures of the full financial year ended 31st March, 2022 and 31st March, 2021 respectively and the published year to date figures upto third quarter ended 31st December, 2021 and 31st December, 2020, respectively, which were subjected to limited review. 2) The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results filed with BSE Ltd. under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and Company's website : www.organiccoatingsltd.com 3) *Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules.						
Place : Mumbai Dated : 30/05/2022			For & on behalf of the Board For Organic Coatings Limited Sd/- Ajay R. Shah Whole Time Director & CFO			

RARE EQUITY PRIVATE LIMITED						
CIN-U74110MH1993PTC074456						
Registered Address:- 151-15th Floor, Nariman Bhavan, Nariman Point, Mumbai city MH-400021 IN Ph No.:- 022-40048766/02266590100 Web Site: https://rareequity.net/ Email id:- rareequity@rareenterprises.net						
Statement of Audited Financial Result for the Quarter and year ended March, 31, 2022						(Rs. In lakhs except for EPS)
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31st March 2022	Quarter ended 31st December 2022	Quarter ended 31st March 2021	Year ended 31st March 2022	Year ended 31st March 2021
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Revenue from Operations	5.69	10,138.75	14,653.59	14,033.57	14,654.39
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	-2,859.49	-7.97	-44.76	-2,399.27	-51.93
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax	-2,859.49	-7.97	-44.76	-2,399.27	-51.93
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	-2,859.49	-7.97	-44.76	-2,399.27	-51.93
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive income (after Tax)]	-2,859.49	-7.97	-44.76	-2,399.27	-51.93
6	Paid Up Equity Share Capital (Face value of Rs 100/- each)	2,693.15	2,693.15	668.85	2,693.15	668.85
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year (as on 31.03.2021)					
8	Securities Premium Account	2,975.72	2,975.72		2,975.72	
9	Earnings Per Share (of Rs. 100/- each)					
	Basic	-106.18	-0.30	-6.69	-89.09	-7.76
	Diluted	-106.18	-0.30	-6.69	-89.09	-7.76
Additional disclosure required under Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations 2015						
Sr. No.	Particulars	For the Quarter ended		For the year ended		
		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Networth	6,835.52	9,694.92	4,362.77	6,835.52	4,362.77
2	Paid Up Debt / Outstanding Debt	67,845.21	67,845.21	-	67,845.21	-
3	Outstanding Redeemable Preference Shares	2,582.00	2,582.00	2,710.00	2,582.00	2,710.00
4	Debt Equity Ratio (includes subordinate Debt)	25.00	24.00	0.02	25.00	0.02
5	Capital Redemption Reserve	751.40	751.40	623.40	751.40	623.40
Note : 1. The above is an extract of the detailed format of audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited Financial results are available on the website of BSE Limited at (www.bseindia.com) and on the website of the Company at website at https://rareequity.net/ 2. For the other line items referred in Regulation 52(4) of the Listing Regulations Pertinent disclosure have been made to the Stock Exchange at BSE Limited and can be accessed on the URLS www.bseindia.com and on the website of the Company at website at https://rareequity.net/						
Place :- Mumbai Date:- 30.05.2022			For and Behalf of the Board of Directors of Rare Equity Private Limited Sd/- Rakesh Jhunjhunwala DIN : 00777064			
			Sd/- Vrushali Deshpande DIN 05216743			

UTIQUE ENTERPRISES LIMITED					
Regd. Office: 912, Embassy Centre, Jammalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021 (CIN: L52100MH1985PLC037767) Tel.: 91 + 22-2288 6100; Email: info@utique.in / www.utique.in					
Extract of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022 (Rs. Lakh)					
PARTICULARS	Quarter Ended			Year Ended	
	31.03.2022 Audited	31.12.2021 Unaudited	31.03.2021 Audited	31.03.2022 Audited	31.03.2021 Audited
Total Revenue / Income from Operations	3,291.50	313.87	151.47	3,838.09	614.30
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items)	883.09	280.33	(22.78)	1,231.51	244.75
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and after Exceptional Items)	883.09	280.33	(22.78)	1,231.51	244.75
Net Profit / (Loss) for the period (after Tax and Exceptional Items)	883.09	280.33	(22.78)	1,231.51	244.75
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	883.09	280.33	(22.78)	1,231.51	244.75
Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs.10 per share)	5,567.01	5,567.01	5,567.01	5,567.01	5,567.01
Reserves (excluding Revaluation Reserve as per Balance Sheet)	(1,007.40)	-	(2,236.94)	(1,007.40)	(2,236.94)
Earnings Per Share (EPS) (Face Value of Rs.10 each) (not annualized)					
1. Basic:	1.59	0.50	(0.04)	2.21	0.44
2. Diluted:	1.59	0.50	(0.04)	2.21	0.44
Notes:					
1) The above is an extract of the detailed format of the Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022 is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and the Company's website www.utique.in .					
2) The above Financial Results have been taken on record by the Board of Directors at its meeting held on May 30, 2022.					
3) Apple Asset Management Limited ("AAML"), the wholly-owned subsidiary, has on March 30, 2022 submitted its application under Section 248 of the Companies Act, 2013 to the Registrar of Companies for striking off its name from the Register of Companies. The Company has been advised that once the application under Section 248 of the Companies Act, 2013 is submitted, AAML ceases to prepare its financial statements. Accordingly, the Company has not prepared the Consolidated Financial Statements for the quarter and year ended March 31, 2022.					
By Order of the Board					
Place : Mumbai					
Date: 30.05.2022					
J. R. K. Sarma Director					

मोदी ने अगरतला में आदर्श आचार संहिता का किया उल्लंघन : माकपा

वर्षाएँ लगातार कि प्रधानमंत्री को के जानू के अफसरन के लिये। गौरवपूर्ण है कि इन दोनों जनों में आपसी 23 जून के सम्बन्ध में होने है।

उत्तराखण्ड है कि माकम में लगातार खरिब जिलेद चौधरी आरंभ ए लगी कि प्रधममंत्री कापल्लयन न सधुं जिला प्रहरीद जिला जिलाप्रहरीदों के लिये आरंभाम को बड़े प्रमाण पर प्रमाण होने छह खान में जहा-आरंभ लगे बड़ी खान के माथम में प्रधममंत्री को सुने के लिए भी प्रमाणाम को बड़े प्रमाण पर प्रमाण होने छह खान के लिए का निर्देश देया था।

खोद रही संकेत

कि अमराग्राम में आरंभ लगातार

में फ़लेल दिया है। अमरासल वामपंथी संगठनों द्वारा राष्ट्रपति का आवाहन पर महोदय एवं वेवेनगारी पर अमरासल में नक़्क़ा मीट करके खरकाल के पक्ष में अलग नया विधान कलेक्टर अयोग्यता प्रदर्शन कार्यक्रम को खरकाली कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाषा-आधारित एमएसएस एल मोर्चा खरकाली, स्वास्थ, राज, निजान्त, रेलवे, एमएसएल, अद्वाराह, आकालिक संगठनों एवं एनटीआई, बैंक, एलआईसी एवं पंचायत जैसे खरकाली उपक्रमों को निजी हाथों में खींचा जा रहा है। इससे खरकाली नीकाली खरकाली में आ गई।

रास के चौथे उम्मीदवार की जीत के लिए जद एस किंग मेकर बनकर उभरा

र बनकर उभरा

म्मीदवारों की जीत से अधिक साथ चौध उम्मीदवार की जीत कर सकनी है। अपने पारों का चुनाव करने के बाद पांच जीत से अधिक 32 वोट जीत से राज्यपाल को निर्वाचक उम्मीदवार चुनने के बाद पांच जीत से अधिक 25 वोट

म. 2282, एलेनी बेल रोड,
www.jobart.com

से पृष्ठ की है जो वे चार अवसरों अतिरिक्त निरंकुश अतिरिक्त, 2002 की चार अतिरिक्त सुदूर उच्च द्वय सर्वोच्च द्वय

क्र.सं.	उपनिष्ठापक की विधि नमूना की विधि का प्रकार दर्शाते	प्रत्येक विधि
उपनिष्ठापक (आरक्षण)	26-04-2022 ए.	04-02-20
प्रतिष्ठान, 0.01	2,28,75,79,90,26/-	

350.31	14,98,929/-	30-12-20
--------	-------------	----------

आई तह (रोकथान)	26-04-2022 रु. 11,63,716/-	82-02-20
आवां (उपयोजन)	26-04-2022 रु. 5,00,056/-	88-02-20

तथा लागू री) को बचत तथा कृषि विकास प्रमोशन बोर्ड (एनडीसीएस) और एनडीसीएस तथा प्रमोशन बोर्ड द्वारा जारी की गई है।

प्रतिष्ठित अधिकारी
आई तह आई तह आई तह आई तह

सुरक्षित	सामुदायिक	वीरगंजी की
सुरक्षा	सुरक्षा	सुरक्षा
सुरक्षा	सुरक्षा	सुरक्षा
सुरक्षा	सुरक्षा	सुरक्षा

(र)	(प)	(अ)
र. 8,00,000/- र. 80,00,000/-	जुल 13, 2022 को शु 11:00 बजे से छे 02:00 बजे तक	जुल 23, 2022 छे 12:30 बजे से
र. 0.30,000/- र. 1.03,000/-	जुल 10, 2022 को शु 11:00 बजे से छे 02:00 बजे तक	जुल 23, 2022 छे 01:00 बजे से

संयुक्त बैंक, पैसावादा (UHL Link
22, 2022 को साय 06:00 बजे से
है, जिससे निम्न रूप से यह सारांश
संयुक्त बैंक) को आईसीआईआई बैंक
एन, एनआईए - 492001 में तथा काल
तान साय अर्थात् बैंक छोटी घाटी की
साय बैंक को कि सायनी कोसिका
आईसीआईआई बैंक लिमिटेड, तीसरी
2001 में निम्न प्रत्येकी की इलेक्ट्रॉनि
का डिजिटल ट्रांजैक्शन के आईसी बैंक
युं ही साय।

प्राधिकृत अधिकारी